



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 13] नई दिल्ली, मार्च 23—मार्च 29, 2014, शनिवार/चैत्र 2—चैत्र 8, 1936
No. 13] NEW DELHI, MARCH 23—MARCH 29, 2014, SATURDAY/CHAITRA 2—CHAITRA 8, 1936

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2014

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1976, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (संदेशवाहक) भर्ती नियम, 1979, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (कनिष्ठ पुस्तकालय परिचर) भर्ती नियम 1980, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (पैकर/अभिलेखापाल) समूह 'घ' भर्ती नियम, 1996 और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1996 को, उन बातों के सिवाए अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में बहुकार्य कर्मचारिवृन्द के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृन्द (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु कार्य कर्मचारिवृन्द	*134 (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1800 रु.	अचयन
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	
(6)		(7)	(8)	
18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों के सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रूप में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)		आवश्यक- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	लागू नहीं होता	
टिप्पण 1:-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,				

(6)

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 :-रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति:भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)– जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी 1. निदेशक, प्रशासन (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) –अध्यक्ष 2. उपनिदेशक (प्रशासन) (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) –सदस्य 3. अवर सचिव (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) –सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए. 12018/03/2012-प्रशा-II]
एन. कुमारस्वामी, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2014

G.S.R. 62.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate General of Health Services (Group D posts) Recruitment Rules, 1976, the Directorate General of Health Services (Messenger) Recruitment Rules, 1979, the Directorate General of Health Services (Junior Library Attendant) Recruitment Rules, 1980, the Directorate General of Health Services (Packer/Record Keeper) Group 'D' Recruitment Rules, 1996 and the Directorate General of Health Services (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1976, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, New Delhi, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Multi Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification, pay band, grade pay or pay scale.— The number of the said post, its classification, the pay band, and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of Posts	Classification	Pay band, and grade pay or pay scale	Whether selection Post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	*134 (2014) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 1800	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)

Between 18 and 25 years
(Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates, up to forty five years in the case of Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time)

Essential:
10th class pass or equivalent from a recognised Board.

Not applicable

Note-1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep)

Note-2 : In case the recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Period of probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	Direct recruitment	Not applicable	Group 'C' Department Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of- 1. Director Administration, (Directorate General of Health Service) -Chariman 2. Deputy Director (Administration) Directorate General of Health Service -Member 3. Under Secretary, Ministry of Health and Family Welfare -Member	Not applicable.

[F. No. A. 12018/03/2012-Admn.II]

N. KUMARA SWAMY, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2014

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय अधिकारी (समूह “क”) पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम क्षेत्रीय अधिकारी (समूह “क”) पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा भर्ती (संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. क्षेत्रीय अधिकारी (समूह “क”) पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा भर्ती नियम, 2012 की अनुसूची के स्तंभ (7) में, “आवश्यक” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“(iii) किसी भी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या विश्वविद्यालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या किसी भी मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या किसी भी पशु चिकित्सा अस्पतालों में पशु रोग अन्वेषण और उनके नियंत्रण में पांच वर्ष का प्रयोगशाला का अनुभव।”

[फा. सं. 39-12/2009- प्रशा. III]

धीरज भास्कर, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का.नि. सं. 39, तारीख 7 फरवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th March, 2014

G.S.R. 63.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Regional Officer (Group 'A'), Animal Quarantine and Certification Services Recruitment Rules, 2012, namely :—

1. (1) These rules may be called the Regional Officer (Group 'A'), Animal Quarantine and Certification Services Recruitment (Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Regional Officer (Group 'A'), Animal Quarantine and Certification Services Recruitment Rules, 2012, in the Schedule, in column (7), under the heading "Essential", for serial number (iii) and entry thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“(iii) Five years laboratory experience in animal disease investigation and their control in any State or Central Government Department or in any University or in the Indian Council of Agricultural Research or in any Recognised Research Institution or Public Sector Undertaking or in any Veterinary Hospital”.

[F.No. 39-12/2009-A.III]

DHEERAJ BHASKAR, Under Secy.

Footnote: —The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 39, dated the 7-2-2012.